

खीरु

अजु असां हिकु अहिडो बैतु पढंदासीं, जेको सिंधी बोलीअ में तमामु मशहूरु आहे। बैत जो नालो आहे 'जो खीरु पीए'। हिन बैत मां असांखे खीरु पीअण जे फ़ाइदनि जी ज़ाण ऐं केतिरियूं ई सिखियाऊं मिलंदियूं।



सिखण जा नतीजा

हिन सबक़ खे पढण खां पोइ शागिर्द-

- बैत खे सुर में गाइनि था।
- खीरु पीअण जा फ़ाइदा बुधाइनि था।
- बैत खे गीत जे रूप में गुनगुनाइनि था।
- नवां लफ़ज़ सिखी, रोज़ानी जिंदगीअ में इस्तेमाल कनि था।





8.1 बुनियादी सबक़ु

हाणे अचो त हीउ सबक़ु ध्यान सां पढूं ऐं समुझूं-

जो खीरु पीए
सो वीरु थिए
डुंद जोरु वठनि
सुठा सुहिणा लगनि





अखियुनि जोति वधे
डाढी सूहं थिए
वठे जोरु बदन
लिड सघा थियनि



खीरु सफ़ा सुठो
वाह डाढो मिठो
ब़ारो अचो पीऊं
भरे खीर वटियूं



सभु जोरु वठूं
पी खीरु वधूं
डे खीरु अमां
पी पढण वजा



8.2 अचो त समुझूं

हिन बैत में खीरु पीअण जा घणेई फ़ाइदा बुधाया विया आहिनि। खीरु पीअण सां डुंद मजबूत थींदा आहिनि, अखियुनि जी जोति वधंदी आहे, शरीरु ताकतवरु थींदो आहे, इनकरे कवी ब़ारनि खे रोजु खीरु पीअण जी सलाह डि़ए थो। कवी इहो पिणु समुझाए थो त खीर जो सवाद मिठो थींदो आहे, खीरु पीअण सां तरावत ईंदी आहे ऐं खीर मां घणेई शयूं ठहंदियूं आहिनि; जीअं त ड़ही, मखणु, माल मिठायूं वगैरह। खीरु पूजा में बि कमि ईंदो आहे।





सबक बाबत सुवाल 8.1

सही जवाब चूडे ब्रेकेट (✓) में लिखो-

1. खीरु हूंदो आहे-
(अ) मिठो (ब) खटो
(स) तिखो (द) खारो ()
2. बालक अमां खां घुरियो-
(अ) पाणी (ब) शरबत
(स) मानी (द) खीरु ()
3. खीरु पीअण सां जोति वधे थी-
(अ) अखियुनि जी (ब) डुंदनि जी
(स) बदन जी (द) बांहं जी ()



मशगूलियूं 8.1

- (1) ही बैतु लिखी सुर सां गायो।
- (2) खीरु पीअण जे फाइदनि बाबति पंज जुमिला लिखो।



तव्हीं छा सिखिया

- खीरु असां जे शरीर जी ताकत लाइ तमामु जरूरी आहे।
- खीरु बारनि लाइ फाइदेमंद आहे।
- खीर मां केतिरा ई सवादी ताम, माल मिठायूं ठाहे सघिजनि था।





वधीक ज्ञाण

खीर में केतिरा ई ताकत डींदड़ जुड़ा मौजूद आहिनि। खीर में मुख्य तोर कैलशियम हूंदो आहे, जेको हडियुनि में मजबूती आणींदो आहे। अहिडे नमूने असां खे पंहिंजी सिहत सुठी रखण लाइ मेवा ऐं भाजियूं बि खाइणु खपनि।



सबक़ जे आखिर जा सुवाल

1. खाल भरियो-






- (i) मां सुबूह जो पीअंदो आहियां। (खीरु, शरबत, दवा)
- (ii) खीरु पीअण सां डुंद थींदो आहिनि।
(पीला, कमजोर, मजबूत)
- (iii) कसरत करण सां शरीर थींदो आहे।
(सघारो, सुस्त, बीमार)
- (iv) ब्राओ अचो पीऊं, भरे खीर
(वटियूं, बाल्टियूं, थाल्हियूं)

2. हिक लफ़्ज़ में जवाब लिखो-

- (i) जेको खीरु पीअंदो, उहो छा थींदो?
- (ii) खीरु पीअण सां अखियुनि जी छा वधंदी?
- (iii) खीर जो सवादु बुधायो।
- (iv) ब्राओ खीरु कंहिं खां थो घुरे?



4. जोड़ा मिलायो-

चित्र	लफ़्ज़
(i) 	(अ) वीरु
(ii) 	(ब) वटी
(iii) 	(स) डुंद
(iv) 	(द) अखियूं
(v) 	(य) खीरु



सबक़ बाबत सुवालनि जा जवाब

1. (अ) 2. (द) 3. (अ)



नवां लफ़्ज़

- वीरु = बहादुर
- सघा = ताकतवर
- ज़ोरु = मज़बूत
- वटियूं = कटोरियूं
- जोति = रोशनी
- लिड = शरीर जा उज़िवा

